



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अन्तर्राज्यीय साइबर अपराधी गैंग के 03 सदस्य गिरफ्तार

दिनांक- 06-09-2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में घटित हो रहे साइबर अपराधों पर नियंत्रण हेतु टीम गठित कर साइबर क्राइम सेल को निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में साइबर क्राइम के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत साइबर क्राइम सेल व थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम द्वारा 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सीतापुर के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री पीयूष कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी अपराध श्री सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में साइबर सेल टीम को अभिसूचना संकलन व डिजिटल साक्ष्य एकत्रित कर साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आवश्यक आदेश निर्देश दिये गये। जिसके सम्बन्ध में जनपद सीतापुर के कोतवाली नगर व थाना रामपुर कलां में अभियोग पंजीकृत है।

- पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना का अनावरण करने वाली टीम को 10000/- रू की धनराशि से पुरस्कृत किया गया।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. प्रदीप कुमार सिंह उर्फ हिमांशू पुत्र प्रेम कुमार निवासी म0न0 4 श्रीनगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जिला उन्नाव
2. अमन सिंह पुत्र भरत सिंह निवासी बह्मनगर निकट शुक्ला टैंट वाली गली शुक्लागंज थाना गंगाघाट जिला उन्नाव
3. रवि कुमार पुत्र कामता प्रसाद निवासी म0न0 326 कच्ची बस्ती निकट भाटिया भवन गोविन्द नगर थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर।

फरार अभियुक्त- विकास गुप्ता पुत्र पप्पू गुप्ता निवासी बह्मनगर निकट गीता कोनवेंट स्कूल वाली गली शुक्लागंज थाना गंगाघाट उन्नाव।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 238/21 धारा 420भा0द0वि0 व 66 आई0टी0 एक्ट थाना रामपुर कला सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 408/21 धारा 419/420/467/648/471 भा0द0वि0 व 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना कोतवाली नगर सीतापुर

3. मु0अ0सं0 344/21 धारा 420 भा0द0वि0 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी ।
4. मु0अ0सं0 92/19 धारा 419/420/467/468 भा0द0वि0 व 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना फीलखाना कानपुर नगर ।
5. मु0अ0सं0 216/19 धारा 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना कोतवाली नगर कानपुर नगर ।
6. मु0अ0सं0 120/19 धारा 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना फीलखाना कानपुर नगर ।
7. मु0अ0सं0 120/19 धारा 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना कर्नलगंज कानपुर नगर ।
8. मु0अ0सं0 09/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कर्नलगंज कानपुर नगर ।
9. मु0अ0सं0 747/19 धारा 417/419/420 भा0द0वि0 व 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना कोतवाली नगर सीतापुर

अपराध का तरीका-

अभियुक्तगणों का एक संगठित गिरोह है जिसमें कई लोग मिलकर सुनियोजित तरीके से साइबर अपराध करते हैं। मुख्य रूप से केनरा बैंक जाकर खाताधारकों का खाता संख्या प्राप्त कर लेते हैं तथा केनरा बैंक के टोल फ्री नम्बर पर फोन कर खाता नम्बर बता कर खातों से सम्बन्धित अन्य गोपनीय जानकारी जैसे खाताधारक का नाम व पता, रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर, डेबिट कार्ड के शुरूवात व अन्त के 4-4 अंक प्राप्त कर लेते हैं, बाकि बचे 8 अंकों में से 4 अंक ब्रांच कोड तथा 2 अंक शून्य होते हैं, शेष बचे 2 अंक अभियुक्त अन्य केनरा बैंक के डेबिट कार्ड की समीक्षा कर तैयार कर लेते हैं। खाताधारक के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर अभियुक्तगणों द्वारा सबसे पहले रिचार्ज/टॉपअप किया जाता है, इसके पश्चात अपने फर्जी 05 विभिन्न नम्बरों से खाताधारक के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर मिस काल/काल करते हैं व खाताधारक से ये लोग कुछ देर अनावश्यक बातें करते हैं जिससे काल ड्यूरेशन बन सके। इसके पश्चात मोबाइल कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर काल करके खाताधारक के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर को बन्द कराने का अनुरोध करते हैं एवं अपना नम्बर बताते हैं, मोबाइल कम्पनी द्वारा मांगी गई जानकारी जैसे अंतिम रिचार्ज व अंतिम पांच कॉल जिससे बातचीत की गयी हो, उसे भी उपलब्ध कराते हैं, मोबाइल कम्पनी सन्तुष्ट होने पर उक्त मोबाइल नम्बर को बंद कर देती है। अभियुक्तगण यह मोबाइल नम्बर फर्जी पहचान पत्र से अपने सहयोगियों को आवंटित करा देते हैं, इसके पश्चात केनरा बैंक की वेबसाइट canarabank.com अथवा candi mobile banking app पर उपरोक्त समस्त विवरण उपलब्ध कराकर खाताधारक के खाते से इन्टरनेट बैंकिंग से आईएमपीएस(यू0पी0आई0) व मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मनी ट्रांसफर एजेंट अथवा अन्य सहयोगी अभियुक्त के खाते से पैसे स्थानान्तरित कर धनराशि निकाल लेते हैं।

माल बरामदगी:-

- | | |
|------------------------|--------|
| 1- मोबाइल फोन एनड्राईड | 04 अदद |
| 2- मोबाइल फोन कीपैड | 01 अदद |
| 3- फर्जी आधार कार्ड | 03 अदद |

गिरफ्तार करने वाली साइबर क्राइम सेल टीम:-

1. निरी० श्री विजयवीर सिंह सिरोही,
2. का० रोहित कुमार तोमर
3. का० भूपेन्द्र राणा
4. का० सुमित राघव
5. का० अनुराग पाण्डेय

थाना कोतवाली पुलिस टीम:-

- 1- वरिष्ठ उ०नि० श्री मुकेश कुमार
- 2- उ०नि० श्री शशांक पाण्डेय
- 3- हे०का० रामअवध
- 4- का० संदीप सिंह



